



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 नवम्बर, 2024

कार्तिक 16, 1946 शक सम्वत्

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,

ASHOKA ROAD,

NEW DELHI-110001

6<sup>th</sup> November, 2024,

Dated: 15 Kartika, 1946(Saka)

No.100/UP-LA/5-13/2024

### NOTIFICATION

WHEREAS, The Election Commission has announced, *inter-alia*, the schedule for bye-election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 09 Assembly constituencies namely, 16-Meerapur, 29-Kundarki, 71-Khair (SC), 56-Ghaziabad, 110-Karhal, 213-Sishamau, 256-Phulpur, 277-Katehari, 397-Majhawan AC *vide* its Press Note No. ECI/PN/150/2024 dated 15<sup>th</sup> October, 2024 (Tuesday); and

2. WHEREAS, election notifications for these 09 Assembly Constituencies were issued under Section 30, 56 and 150 of the Representation of the People Act, 1951 on 18<sup>th</sup> October, 2024(Friday), thereby fixing 13<sup>th</sup> November, 2024 as the date of poll in these 09 Assembly Constituencies; and

3. WHEREAS, in the meantime, representations have been received from National and other political parties regarding postponement of the date of poll to a later date, due to large scale social, cultural and religious engagements of the general public on the date of poll in the districts involved in the ongoing bye-elections from the state; and

4. WHEREAS, the District Election Officers of the bye-election bound districts in their reports have also conveyed that such large scale social, cultural and religious engagements, may cause inconvenience to a large number of persons, involving various logistic issues, which may eventually lead to lesser voter participation in these elections; and

5. WHEREAS, having considered all aspects of the matter, the Commission has decided to reschedule the date of Poll for aforementioned 09 Assembly Constituencies;

6. NOW, THEREFORE, in view of the above, the Election Commission, in exercise of the powers available to it under Section 21 of the General Clauses Act, 1897, hereby makes following amendment in

each of its notification No. 100/UP-LA/5/2024, No. 100/UP-LA/6/2024, No. 100/UP-LA/7/2024, No. 100/UP-LA/8/2024, No. 100/UP-LA/9/2024, No. 100/UP-LA/10/2024, No. 100/UP-LA/11/2024, No. 100/UP-LA/12/2024 and No. 100/UP-LA/13/2024 all dated 18.10.2024:

sub-para (d) of para (B) of the aforementioned notifications shall be substituted with

“(d) the 20<sup>th</sup> November, 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken;.”

By order,  
PAWAN DIWAN,  
Secretary.

By order,  
NAVDEEP RINWA,  
Principal Secretary.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001

6 नवम्बर, 2024

दिनांक: \_\_\_\_\_  
15 कार्तिक, 1946 (शक)

संख्या 100/उ0प्र0-वि0स0/5-13/2024

### अधिसूचना

यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/150/2024 दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) के जरिए, अन्य के साथ-साथ, उत्तर प्रदेश की 09 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों नामतः, 16-मीरापुर, 29-कुन्दरकी, 56-गाजियाबाद, 71-खैर (अ.जा.), 110-करहल, 213-सीसामऊ, 256-फूलपुर, 277-कटेहरी और 397-मझवां से उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की है; और

2-यतः, इन 09 विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए 18 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30, 56 और 150 के तहत निर्वाचन अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, जिनके द्वारा 13 नवम्बर, 2024 को इन 09 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदान की तारीख के रूप में नियत किया गया था; और

3-यतः, इस बीच, राज्य में चल रहे उप-निर्वाचनों में सम्मिलित जिलों में मतदान की तारीख को आमजनों की बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भागीदारियां होने के नाते मतदान की तारीख को उत्तरवर्ती किसी तारीख तक मुलतवी करने के संबंध में राष्ट्रीय और अन्य राजनैतिक दलों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

4-यतः, उप-निर्वाचनरत जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्टों में यह सूचित किया है कि इतने बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक भागीदारियों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के संभार तंत्रीय मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है जिससे अंततोगत्वा इन चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है; और

5—यतः, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने पर आयोग ने पूर्वोल्लिखित 09 विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए मतदान की तारीख को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

6—अतः, अब, पूर्वोक्त के दृष्टिगत, निर्वाचन आयोग, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2024 की अपनी प्रत्येक अधिसूचना सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/5/2024, सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/6/2024, सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/7/2024, सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/8/2024, सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/9/2024, सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/10/2024, सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/11/2024, सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/12/2024 और सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/13/2024 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :

पूर्वोल्लिखित अधिसूचनाओं के खंड (आ) के उप-खंड (घ) को

“(घ) वह तारीख, जिससे पहले मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, कराया जाएगा—20 नवंबर, 2024 (बुधवार);” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आदेश से,  
पवन दीवान,  
सचिव।

आज्ञा से,  
नवदीप रिणवा,  
प्रमुख सचिव।

